



एनएचपीसी कार्यालय परिसर
 सेक्टर-33, फरीदाबाद-121003

निविदा आमंत्रण सूचना
 (घरेलू परिसीमित प्रतिस्पर्धी बोली)
 (ई-निविदा)

निविदा संदर्भ सं. एनएच/सीसी-III/पीआर 10020/233

- एनएचपीसी लिमिटेड, एतदपश्चात नियोक्ता / स्वामी के रूप में संदर्भित, द्वारा “कर्नाटक के कोप्पल जिले में 10 वर्षों के लिए व्यापक ओ एंड एम के साथ अल्ट्रा मेगा रिन्यूएवल एनर्जी पावर पार्क (यूएमआरईपीपी) में 100 मेगावाट आईएसटीएस कनेक्टेड ग्राउंड माउंटेड सोलर पीवी प्रोजेक्ट के विकास के लिए इंजीनियरिंग प्रापण और निर्माण (ईपीसी) संविदा ” हेतु एनएचपीसी में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए सूचीबद्ध बोलीदाता(50 मेगावाट या इससे अधिक की क्षमता के लिए सूचीबद्ध) से ई-रिवर्स नीलामी (ई-आरए) सहित सिंगल स्टेज-टू पार्ट बिडिंग बेसिस (अर्थात् भाग-1: क्यूआर+तकनीकी – बोली और भाग-11 : वित्तीय बोली) में घरेलू परिसीमित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से ऑनलाइन बोलियां आंमत्रित की जाती है।

सम्पूर्ण बोली दस्तावेजों / निविदा दस्तावेज को केन्द्रीय लोक प्रापण (सीपीपी) पोर्टल <http://eprocure.gov.in/eprocure/app> से देख व डाउनलोड कर सकते हैं। इस साइट सीपीपी पोर्टल को एनएचपीसी की वेबसाइट के ई-प्रोक्योरमेंट कॉर्नर और सीपीपी पोर्टल के माध्यम भी देखा जा सकता है। यदि निविदादाता जो इस निविदा में भाग लेना चाहते हैं तो वे निविदादाता ई-टेंडरिंग हेतु ऑन लाइन बोलीदाता पंजीकरण करने के पश्चात उक्त पोर्टल से बोली दस्तावेज डाउनलोड कर सकते हैं। यद्यपि, इस बोली को निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख व समय तक केवल <http://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना है। निविदा दस्तावेज की हार्ड कॉपी की बिक्री लागू नहीं है।

E-Reverse Auction (e-RA) shall be conducted after e-tendering. The decision of NHPC regarding adoption of e-RA shall be final.

निविदा का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	मद	विवरण
i)	निविदा का माध्यम	ई-प्रोक्योरमेंट सिस्टम लिफ्काफ्टा-1 : ऑनलाइन तकनीकी - वाणिज्यिक बोली लिफ्काफ्टा-11 : मूल्य बोली
ii)	निविदा आईसंख्या .डी.	2020_NHPC_599350_1
iii)	निविदा संदर्भ संख्या	एनएच/सीसी-III/पीआर 10020/233

iv)	निविदा दस्तावेज की लागत	शून्य
v)	निविदा प्रतिभूति (ईएमडी)	आईटीबी के खंड संख्या 14 के अनुसार बिड सेक्युर्टी डिक्लरेशन
vi)	निविदा की वैद्यता अवधि	ऑनलाइन बोलियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से 120 दिन
vii)	कार्य पूरा करने की अवधि	<p>क) अवार्ड की अधिसूचना जारी करने की तारीख से “कर्नाटक के कोप्पल जिले में 10 वर्षों के लिए व्यापक ओ एंड एम के साथ अल्ट्रा मेगा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क (यूएमआरईपीपी) में 100 मेगावाट आईएसटीएस कनेक्टेड ग्राउंड माउंटेड सोलर पीवी प्रोजेक्ट के विकास के लिए इंजीनियरिंग प्रापण और निर्माण (ईपीसी) संविदा ” की पूर्णता अवधि जिसमें चालू करने की अवधि भी शामिल है, 12 (बारह) माह हैं।</p> <p>ख) व्यापक प्रचालन एवं रखरखाव की अवधि परियोजना के चालू होने की तारीख से 10 वर्ष है।</p>
viii)	निविदा आमंत्रण करने वाले प्राधिकारी	<p>महाप्रबंधक (सिविल संविदा- III), कमरा सं. 220 बी, द्वितीय तल, एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर-33, फरीदाबाद-(121003), हरियाणा, भारत टेली. नं०:+91(129) 2270974 ई-मेल : contcivil3-co@nhpc.nic.in</p>

निविदा की महत्वपूर्ण तिथियाँ निम्नानुसार हैं:

S. No.	Particulars	Date & Time
i)	निविदा प्रकाशन की तारीख एवं समय	05.01.2021 (1730 बजे)
ii)	दस्तावेज डाउनलोड प्रारम्भ करने की तारीख व समय	05.01.2021 (1730 बजे)
iii)	बोली पर प्रश्नों /स्पष्टीकरण की प्राप्ति की अंतिम तिथि	15.01.2021 (1300 बजे तक)
iv)	निविदा पूर्व बैठक की तारीख व समय	19.01.2021 (1500 बजे)
v)	निविदा प्रस्तुत करने की प्रारंभ तारीख व समय	09.02.2021 (1700 बजे)
vi)	ऑन लाइन निविदा प्रस्तुत करने	16.02.2021(1730 बजे)

	की अंतिम तारीख व समय	
vii)	ऑफ लाइन निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख व समय एवं) (पता	दिन क्रम संख्या viii) के अनुसार (1100 बजे तक) <u>पता:</u> महाप्रबंधक (सिविल संविदा- III), कमरा सं. 218, द्वितीय तल, एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर-33, फरीदाबाद-(121003), हरियाणा, भारत टेली फैक्स नं० :+91(129) 2270974 ई-मेल : contcivil3-co@nhpc.nic.in
viii)	बोली खोलना: ऑनलाइन/ ऑफलाइन बोली (तकनीकी बोली) (भाग- I) की दिनांक, समय और स्थान	23.02.2021 (1130 बजे) महाप्रबंधक -ल संविदाविसि) III(, कमरा सं 218 द्वितीय तल, एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सैक्टर-33, फरीदाबाद(121003)-, हरियाणा, भारत टेली फैक्स नं० :+91(129) 2270974 ई मेल-: contcivil3-co@nhpc.nic.in
ix)	मूल्य बोली निविदा खोलना (लिफाफा -II) वित्तीय बोली	टेक्नो-कमर्शियल रेस्पोसिव बोलीदाताओं को स्थान, दिनांक & समय के बारे में बाद में सूचित किया जाएगा ।
x)	ई-रिवर्स नीलामी की दिनांक और समय	एनएचपीसी द्वारा अलग से सूचित किया जाएगा

2. पात्र बोलीदाता:

- 2.1 बोली के लिए इस आमंत्रण को निम्नलिखित के लिए खोला जाएगा :
- एनएचपीसी में सौर परियोजनाओं के निष्पादन के लिए सूचीबद्ध बोलीदाता (50 मेगावाट या इससे अधिक क्षमता के लिए सूचीबद्ध) ।
 - आईटीबी खण्ड 3 में परिभाषित योग्यता मानदंडों को पूरा करने वाले सभी सूचीबद्ध बोलीदाता ।
 - उन बोलीदाता जिन्होंने बोली प्रतिभूति (ईएमडी) की अपेक्षित राशि जमा नहीं की है, उनकी बोलियां मूल्यांकन के लिए विचार नहीं की जाएगी । उन बोलीदाता जिनके लिए नियोक्ता द्वारा निविदा दस्तावेज जारी नहीं किए गए हैं, उनकी बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 2.2 आईटीबी खंड संख्या 32.1 या अन्य के अनुसार, बिडर किसी सरकारी संस्थान या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा भ्रष्ट और कपटपूर्ण कार्यों के लिए अयोग्यता की घोषणा के अधीन न हो।
- 2.3 बिडर जिनका कांट्रैक्ट नियोक्ता द्वारा खराब निष्पादन के कारण समाप्त कर दिया गया है, उन्हे संविदा समाप्त की अधिसूचना की तारीख से अगले पांच वर्षों के लिए निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी ।

- 2.4 व्यावहारिक लेन-देन पर प्रतिबंध संबंधी दिशा-निर्देशों में वर्णित पैरा 6 (संलग्नक-2, आईटीबी) के आधार पर बोलीदाता को प्रतिबंधित/सूची से बाहर/ब्लैक लिस्टेड अथवा बहिष्कृत नहीं किया गया होना चाहिए। इस संबंध में संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार स्वघोषणा जमा की जानी है।
- 2.5 कॉट्रैक्ट हेतु पात्रता सिद्ध करने के लिए अर्हता प्राप्त हेतु बोलीदाता को समस्त अर्हता मापदंड को पूरा करने के किए कार्य अनुभव, वित्तीय क्षमता और पर्याप्त संसाधनों को प्रमाणित या सिद्ध करना अनिवार्य है। यदि इस संबंध में प्रमाण पत्र और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में विफल हो जाता है तो उसकी बोली अप्रतिक्रियाशील (नॉन-रेस्पोंसिव) समझी जाएगी।

यद्यपि बोलीदाता योग्यता मानदंड को भी पूरा करते हैं, फिर भी वे अयोग्य किए जाने के अधीन हैं यदि उन्होंने योग्यता आवश्यकताओं के प्रमाण में प्रस्तुत किए गए प्रपत्रों, विवरणों, घोषणाओं और अनुलग्नकों में भ्रामक या गलत अभिवेदन किया है।

3. बोलीदाताओं की योग्यता

- 3.1 सभी बोलीदाता अपनी बोलियों के साथ योग्यता संबंधी निम्नलिखित सूचना एवं दस्तावेज ही प्रस्तुत करेंगे, जब तक कि आईटीबी में अन्य कुछ नहीं उल्लेख किया गया हो :
- (ए) बोली पर हस्ताक्षरकर्ता का लिखित पावर ऑफ एटार्नी ताकि उसे बोलीदाता माना जा सके। अनुलग्नक-3क (आईटीबी की सामान्य सूचना पत्रक) में मांगी गई अतिरिक्त जानकारी दी जाए।
- बी) हटा दिया गया है।
- (सी) खण्ड 3.2.बी में निर्धारित वित्तीय मापदंड संबंधी सूचना के साथ पिछले 3 (तीन) वर्षों के वित्तीय लेनदेन का उल्लेख करते हुए चार्टड एकाउन्टेंट का शपथ-पत्र/ प्रमाणपत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। पिछले 3(तीन) वर्षों के लिए बोलीदाता की प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट या वित्तीय विवरण, जैसे कि बैलेंस शीट, लाभ-हानि विवरण तथा लेखापरीक्षा की रिपोर्ट, जैसा भी मामला हो, बोलीदाता के वित्तीय मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तुत की जाए।
- (डी) समय अनुसूची (भाग 5 का परिशिष्ट -4 : प्रपत्र और प्रक्रियाएं के अनुसार)

3.2. योग्यता मानदंड

यह योग्यता इसके अधीन नियत व निर्धारित, प्रमाणित और प्रासंगिक जानकारी और विवरण द्वारा सिद्ध की गई बोलीदाता की योग्यता मानदंड की पूर्ति के अधीन होगी। उपलब्धियों के संबंध में उनके दावों के समर्थन में अतिरिक्त जानकारी डिवाइस व डिजाइन के किसी भी रूप में प्रस्तुत की जाए। बोलीदाता जो उक्त कार्य हेतु उपरोक्त निविदा में भाग लेना चाहते हैं उन्हे निम्नलिखित योग्यता मानदंडों को पूरा करना चाहिए:

3.2. ए हटा दिया गया है।

3.2. बी) वित्तीय मानदंड

- i. कारोबार : पूर्ववर्ती तीन वर्षों में बोलीदाता का न्यूनतम औसत वार्षिक कारोबार 434 करोड़ रुपए होना चाहिए।

- ii. **निवल मूल्य:** बोलीदाता का निवल मूल्य सकारात्मक होना चाहिए और पूर्ववर्ती 5 वर्षों में से 3 वर्षों में प्रदत्त इक्किटी शेयर पूंजी की राशि से कम नहीं होनी चाहिए। निवल मूल्य नकारात्मक नहीं होना चाहिए और तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष में भुगतान की गई इक्किटी शेयर पूंजी की मात्रा से कम नहीं होना चाहिए।
- iii. **कार्यशील पूंजी:** कार्यशील पूंजी (वर्तमान संपत्ति में से वर्तमान देनदारियां घटाकर) कम से कम 48.21 करोड़ रुपए होगी।

इस प्रयोजनार्थ वर्तमान परिसम्पत्तियों और वर्तमान देयताओं की गणना आवेदन पत्र खुलने की तारीख से तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष के लेखा परीक्षित लेखों में वर्गीकृत के आधार को मानकर विचार किया जाएगा। यदि बैलेस शीट में कार्यशील पूंजी की गणना नकारात्मक दर्शायी गई है तो ऐसी कार्यशील पूंजी को शून्य माना जाएगा। ऐसे मामले में, यदि कार्यशील पूंजी में कोई कमी है, तो आवेदकों को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदत्त नकद ऋण सीमाओं तक उक्त कमी की पूर्ति पर विचार किया जाएगा।

नकद ऋण सीमाएं प्रदर्शित करने वाला विवरण बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के अनुसार तीन माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।

टिप्पणी:

1. वार्षिक कारोबार की गणना करने के लिए अन्य आय पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. उपर्युक्त निर्धारित अपेक्षा की तुलना में बोलीदाता का वित्तीय मूल्यांकन उक्त बोलीदाता द्वारा बोली के साथ प्रस्तुत तत्काल पूर्ववर्ती 5 (पांच) वर्षों की विधिवत मुद्रित (ऑफसेट) वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा, बोलीदाता का एकल लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण वार्षिक रिपोर्ट का भाग होगा।

इन मामलों में, यदि बोलीदाता ने बोली के साथ उपर्युक्त वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है तो बोली के साथ बोलीदाता के सीईओ/सीएफओ का एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें यह उल्लेख होगा कि देश के लागू कानून के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट की अपेक्षा अनिवार्य नहीं है। ऐसे मामलों में बोलीदाता द्वारा बोली के साथ तत्काल पूर्ववर्ती 5 (पांच) वर्ष के लेखा परीक्षित मुद्रित वार्षिक वित्तीय विवरण (तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरण, नकद प्रवाह का विवरण, समस्त संगत अनुसूचियों/अनुबंधों आदि सहित उन पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) की विधिवत नोटरीकृत प्रतियां प्रस्तुत की जाएं।

3. यदि तत्काल पिछले वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम उपलब्ध नहीं हैं, तो टर्नओवर, नेट वर्थ, वर्किंग कैपिटल (निर्धारित मानदंडों के अनुसार गणना) को दर्शाते हुए तत्काल वित्तीय वर्ष की समाप्ति तिथि को लेखा विवरण सांविधिक लेखा परीक्षा करने वाले उनके वैधानिक लेखा परीक्षक / प्रमाणित पब्लिक एकाउंटेंट (सीपीए) द्वारा विधिवत प्रमाणित, वैधानिक लेखा परीक्षक / सीपीए की नियुक्ति पत्र की प्रति सहित बोली के साथ संलग्न किया जाएगा।

4. जहां भी, लेखापरीक्षित मुद्रित वार्षिक वित्तीय विवरण की वार्षिक रिपोर्ट/विधिवत नोटरीकृत प्रतियां अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषा में हैं तो बोली के साथ अंग्रेजी भाषा में विधिवत अनुवादित और मुद्रित की प्रतिलिपि और अनुमोदित/मान्यता प्राप्त अंग्रेजी अनुवादक द्वारा प्रमाणित प्रस्तुत की जाएगी।

- 3.2 सी बोलीदाता अथवा जेवी का साझीदार अथवा विनिर्माता जिनके खिलाफ दिवालियापन कोड 2016, या समय-समय पर संशोधन के तहत कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन के आवेदन को अधिनिर्णयक प्राधिकरण द्वारा स्वीकार कर लिया हो, वे बोली लगाने के लिए योग्य नहीं होगें। यह बोलीदाता कंपनी पर भी लागू होगा जिसने अपनी मूल/ धारक कंपनी से बिना शर्त तकनीकी और/ या वित्तीय सहायता ली है, जिसके खिलाफ दिवालिया और दिवालियापन कोड 2016 या समय-समय पर संशोधन (इसके बाद आईबीसी 2016 कहलाएगा) के तहत कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन के आवेदन को अधिनिर्णयक प्राधिकरण द्वारा स्वीकार कर लिया हो

जिस मामले में, बोलीदाता अथवा मूल/ धारक कंपनी, जिनके संबंध में बोली जमा करने के समय कॉर्पोरेट इनसॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रक्रिया शुरू करने के लिए कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया गया था, लेकिन बाद में बोली के मूल्यांकन की अवधि के दौरान या कार्य प्रदान करने से किसी भी समय पहले, इस तरह के किसी भी आवेदन को आईबीसी 2016 के अधीन अधिनिर्णयक प्राधिकरण द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो बोली लगाने वाले को अयोग्य माना जाएगा और उसकी बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

इसके अलावा, बोली प्रस्तुत करते समय या बोलियों के मूल्यांकन की अवधि के दौरान या कार्य प्रदान करने से पहले किसी भी समय, बोलीदाता अथवा मूल/ धारक कंपनी के खिलाफ आईबीसी 2016 के अधीन अधिनिर्णयक प्राधिकरण द्वारा कॉर्पोरेट इनसॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रक्रिया के लिए किसी आवेदन को स्वीकार कर लिया तो बोली लगाने वाले इस संबंध में एनएचपीसी को सूचित करेगा और इस तरह के किसी भी तथ्य के दमन के लिए बोलीदाता को अपनी बोली की अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी माना जाएगा, जो बोली दस्तावेज के निबंधन और शर्तों के अनुसार व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है।

- 3.2.डी संयुक्त उद्यम/ कंसोर्टियम/ सहभागियों को अनुमति नहीं है।

- 3.3 प्रत्येक निविदादाता को अपनी बोली के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा:

- i) पैन नंबर, ईपीएफ पंजीकरण संख्या,
- ii) जीएसटी पंजीकरण संख्या
- iii) अनुबंध 1: घोषणा प्रपत्र में घोषणा करना कि बोली दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत जानकारी सभी मामलों में सही है।
- iv) आईटीबी में परिभाषित ऐसे अन्य प्रमाण पत्र, यदि कोई हैं तो।

- 3.4 अनुबंध की अर्हता प्राप्त करने, जिसके लिए बोलियाँ निविदा आमंत्रण सूचना में आमंत्रित की गई है, के लिए बोलीदाता को कुछ अर्हता मानदंड को पूरा करने के लिए पर्याप्त वित्तीय क्षमता एवं संसाधन होना चाहिए। खंड 3.2 के तहत अपेक्षित प्रमाण पत्र और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में विफल होने पर निविदा को गैर-उत्तरदायी माना जाएगा।
- 3.5 हटा दिया गया है।
- 3.6 यद्यपि निविदाकर्ता उपरोक्त योग्यता मानदंडों को पूरा करते हैं परंतु यदि वे पात्रता आवश्यकताओं के सबूत में प्रस्तुत किए गए प्रारूपों, विवरणों, घोषणाओं और अनुलग्नकों में भ्रामक या गलत प्रस्तुतीकरण कर चुके हैं तो वे अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं।

4. कार्य पूरा करने के लिए समय

सफल बोलीदाता क्रम संख्या 1 के तहत निर्दिष्ट समय के भीतर काम को पूरा करेगा, जो कि अवार्ड पत्र जारी करने की तारीख से गिना जाएगा।

5. निविदाओं को तालिका में कार्य के लिए निर्दिष्ट राशि के बयाना धन के साथ होना चाहिए। अपेक्षित निविदा बयाना राशि के अभाव में निविदा को नाँतरिस्पोंसिव मानकर खारिज - कर दिया जाएगा।
6. हटा दिया गया है।

7. बोली से पूर्व बैठक

- ए) सभी संभावित बोलीदाताओं के लिए खुली एक पूर्व बोली बैठक एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर - 33, फरीदाबाद में उपरोक्त पारा 1 के अनुसार आयोजित की जाएगी जिसमें उन्हें कार्य और बोली की शर्त के संबंध में स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, प्राप्त करने का अवसर दिया जाएगा।

बोली लगाने वाले भी निर्धारित तिथि और समय पर या यथासंशोधित तिथि और समय पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्री बिड बैठक भाग ले सकते हैं। बोलीदाता जो विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लेना चाहते हैं वे प्री बिड बैठक से दो दिन पहले निविदा आमंत्रण प्राधिकारी (टीआईए) को अपना डीटैल जैसे नाम एवं पद , मोबाइल नंबर, ई-मेल एड्रैस, फर्म का नाम और अन्य आवश्यक जानकारी प्रदान करेंगे। प्रतिभागी के पास दुरुस्त इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिये क्योंकि इंटरनेट या किसी तकनीकी समस्या के कारण किसी भी व्यवधान के लिए निविदा आमंत्रण प्राधिकरण को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। पासवर्ड एवम मीटिंग आईडी , संभावित बोलीदाताओं के ईमेल / मोबाइल पर , 1 घंटे पूर्वे साझा की जाएगी।

- बी) संभावित बोलीदाता पूर्व बोली बैठक से कम से कम तीन दिन पहले निविदा आमंत्रण प्राधिकारी के पते पर ईकुरियर/मेल- द्वारा अपने प्रश्न, यदि कोई हो तो ,प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि बैठक के दौरान इसका जवाब दिया जा सके।

8. बोली प्रस्तुतिकरण

- i) ऑनलाइन बोली जमा करना - तकनीकी बोली (कवर- I) (आईटीबी देखें) और मूल्य बोली (कवर-II) इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट सभी मामलों में पूरा होने के बाद ऊर्युक्त क्रम सं.1 के अनुसार निर्धारित तिथि और समय तक उपरोक्त कथित पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए।
- ii) ऑफलाइन बोली (आईटीबी देखें) सभी मामलों में पूरा होने के बाद बोली जमा करने की अंतिम तिथि और समय-सीमा तक दिए गए पते पर सीलबंद लिफाफे में दिया जाए।

निर्दिष्ट तिथि या संशोधन की स्थिति में, यदि कोई हो, नियोक्ता के लिए छुट्टी घोषित होने की स्थिति में, दस्तावेजों की हार्ड कॉपी अगले कार्य दिवस पर निर्दिष्ट समय तक प्राप्त की जाएगी। इसी प्रकार, निर्दिष्ट तिथि या संशोधन की स्थिति में, बोली खोलने के दिन यदि नियोक्ता के लिए छुट्टी घोषित होने की स्थिति में, बोली अगले कार्य दिवस पर निर्दिष्ट समय पर खोला जाएगा। हालाँकि, बोली को ऑनलाइन जमा करने की तिथि और समय वही निर्दिष्ट या संशोधित, यदि कोई हो, तिथि और समय रहेगी।

9. बोली के लिए मुद्रा केवल भारतीय रूपए में ही होगें।

- 10. ऑनलाइन बोली जमा करने की प्रक्रिया के लिए समय सीमा के बाद क्रम सं 1 में यथा उल्लिखित अवधि के लिए बोली मान्य होगी। यदि कोई बोलीदाता उक्त अवधि से पहले अपनी बोली वापस ले लेता है या अपनी बोली में किसी भी प्रकार का संशोधन करता है, तो ऐसे बोलीदाता की बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा और बिड सेक्युर्टी डिक्लरेशन को इनवोक किया जाएगा।
- 11. तकनीकी - वाणिज्यिक बोली क्रम संख्या -1 के अनुसार निर्दिष्ट स्थल पर निर्धारित तिथि और समय पर ऑनलाइन खोली जाएगी। तकनीकी बोली के लिए योग्य बोलीदाताओं के वित्तीय बोली को खोलने का समय और तारीख तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन के बाद में सूचित किया जाएगा। नियोक्ता/निविदा आमंत्रण प्राधिकारी अपने विवेक के आधार पर तकनीकी और वित्तीय बोली को एकसाथ खोल सकते हैं और बोली का पूरी तरह मूल्यांकन कर सकते हैं।

12. ईऑनलाइन :निविदा- बोली प्रस्तुत करने के लिए निर्देश

तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्यबोली केन्द्रीय सार्वजनिक प्रापण ई-पोर्टल <http://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर ऑनलाइन प्रस्तुत की जाएगी। बोलीदाताओं को आवश्यक डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र का उपयोग करते हुए केंद्रीय सार्वजनिक प्रापण (सीपीपी) पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपनी बोलियों की सॉफ्ट प्रतियां जमा करना आवश्यक है। सीपीपी पोर्टल पर पंजीकरण करने के लिए बोलीदाताओं की सहायता करने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का मतलब है, सीपीपी पोर्टल पर आवश्यकताओं के अनुसार अपनी बोलियां तैयार करें और अपनी बोलियां ऑनलाइन जमा करें।

12.1 पंजीकरण:

- i) होमपेज पर उपलब्ध ऑनलाइन" बोलीदाता नामांकनविकल्प " का उपयोग करके बोलीदाताओं को केंद्रीय सार्वजनिक प्रापण पोर्टल के ईप्रोक्योरमेंट- मॉड्यूल पर नामांकन करना आवश्यक है। सीपीपी पोर्टल पर नामांकन मुफ्त है।
- ii) नामांकन प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में बोलीदाताओं को एक अनन्य उपयोगकर्ता नाम चुनना होगा और उनके खातों के लिए एक पासवर्ड प्रदान करना होगा।

- iii) पंजीकरण के दौरान बोलीदाताओं को सही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सहित सही जानकारी प्रदान करनी चाहिए। प्रदान किए गए ईमेलआईडी- के माध्यम से सभी पत्राचार सीधे बोलीदाताओं के साथ किए जाएंगे।
- iv) मान्य डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र कुंजी) के साथ हस्ताक्षर करने वाले वर्ग II या वर्ग III प्रमाणपत्र (निविदा-ई के लिए अनिवार्य है जो SIFY/TCS/ nCode/eMudra या CCA India one Token/Smart Card.द्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्रमाणन प्राधिकरण से प्राप्त किया जा सकता है।
- v) ई निविदा के लिए सीपीपी पोर्टल पर नामांकन के बाद, बोलीदाता अपने प्रोफाइल के साथ अपने वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र पंजीकृत करेंगे।
- vi) बोलीदाता द्वारा केवल एक वैध डीएससी पंजीकृत होना चाहिए। बोलीकर्ता का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे सुनिश्चित करें कि वे अपने डीएससी को दूसरे को हस्तांतरित नहीं करते जिससे उसका दुरुपयोग हो सकता है और उन्हें उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।
- vii) बोलीदाता तब अपने यूजर आईडीपासवर्ड/ और डीएससीटीकेन-ई/ का पासवर्ड दर्ज करके सुरक्षित लॉगिन के माध्यम से साइट पर लॉग इन कर सकते हैं।

12.2 बोली दस्तावेजों की खोज करना:

- ए) बोलीदाताओं द्वारा निविदाओं को खोजने को सुविधाजनक बनाने के लिए सीपीपी पोर्टल में कई पैरामीटरों द्वारा विभिन्न खोज विकल्प हैं। इन मापदंडों में निविदा आईडी, संगठन का नाम, स्थान, दिनांक, मूल्य आदि शामिल हो सकते हैं। निविदाओं के लिए उन्नत खोज का एक विकल्प भी है, जिसमें बोलीदाता कई नामों को संयोजित कर सकते हैं जैसे संगठन का नाम, अनुबंध का फॉर्म, स्थान, सीपीपी पोर्टल पर प्रकाशित निविदा की खोज के लिए दिनांक, अन्य कीवर्ड आदि।
- बी) बोलीदाता जिन बोलिओं में रुचि रखते हैं, उससे संबंधित आवश्यक दस्तावेजनिविदा/ कार्यक्रम वे डाउनलोड कर सकते हैं। ये निविदाएं 'My Tenders' फ़ोल्डर में ले जाया जा सकता है। इससे सीपीपी पोर्टल को बोलीदाताओं को एसएमएसमेल-ई/ के माध्यम से सूचित किया जा सकता है, यदि निविदा से संबंधित कोई शुद्धिपत्र जारी होता है।
- सी) बोलीदाता को प्रत्येक निविदा को दिए गए विशिष्ट निविदा आईडी का ध्यान रखना चाहिए, अगर वे हेल्पडेस्क से कोई स्पष्टीकरण/ सहायता प्राप्त करना चाहते हैं।

12.3 बोलियों की तैयारी:

- ए) बोली तैयार करने के लिए, बोलीदाता साइट पर उपलब्ध प्रकाशित निविदा सूची से निविदा खोज पाएंगे और पूरी निविदा दस्तावेज डाउनलोड करेंगे और अपनी निविदाएं जमा करने से पहले प्रकाशित किसी भी शुद्धिपत्र को ध्यान में रख सकेंगे। निविदा दस्तावेज का चयन करने के बाद बोलीदाताओं के 'MyFavourite' फ़ोल्डर में स्थानांतरित कर दिया जाएगा जहां बोलीदाता निविदा दस्तावेज के सभी विवरण देख सकता है।
- बी) बोलीदाता को बोली के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किए जाने वाले अपेक्षित दस्तावेजों को समझने के लिए ध्यानपूर्वक निविदा दस्तावेज का अध्ययन करना होगा। बोलीदाता कवर की संख्या को ध्यान में रखेगा जिसमें बोली दस्तावेजों को जमा किया जाना है, दस्तावेजों की संख्या सहित, प्रत्येक दस्तावेज

के नाम और सामग्री सहित, जो प्रस्तुत की जानी चाहिए। इनमें से कोई भी विचलन बोली को अस्वीकार कर सकता है।

- सी) कोई भी स्पष्टीकरण, यदि आवश्यक हो तो, निविदा साइट के माध्यम से या निविदा दस्तावेज में दिए गए संपर्क विवरण के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है।
- डी) बोलीदाता को बिड-दस्तावेज जैसाकि निविदा दस्तावेज़/ PDF सेबुल्स / xls/ rar/ zip/ dwf प्रारूप में प्रस्तुत करने के लिए पहले से ही तैयार रहना चाहिए। अगर एक से अधिक दस्तावेज़ हैं, तो उन्हें ज़िप प्रारूप का उपयोग करके एक साथ जोड़ा जा सकता है। बोली दस्तावेजों को 100 dpi के साथ काले और सफेद विकल्प में स्कैन किया जा सकता है जो स्कैन किए गए दस्तावेजों के आकार को कम करने में मदद करता है।
- ई) मानक दस्तावेजों के एक ही सेट को अपलोड करने में लगने वाले समय और प्रयास से बचने के लिए, जो प्रत्येक बोली के एक भाग के रूप में प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता होती है, इस तरह के मानक दस्तावेजों (जैसे पैन कार्ड कॉपी, वार्षिक रिपोर्ट, ऑडिटर प्रमाण पत्र आदि) को अपलोड करने का प्रावधान किया गया है। बोली लगाने वालों को प्रदान किया गया। बोलीदाता ऐसे दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए "माइस्पेस" या "अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज़" क्षेत्र का उपयोग कर सकते हैं। बोली जमा करते समय इन दस्तावेजों को सीधे "मेरी जगह" या "अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों" क्षेत्र से प्रस्तुत किया जा सकता है और इसे बार-बार अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। इससे बोली जमा करने की प्रक्रिया में लगने वाले समय में कमी आएगी।

12.4 बोलियां प्रस्तुत करना:

- i. बोलीदाता को बोली प्रस्तुति के लिए साइट में निर्धारित समय से पहले प्रवेश कर लेना चाहिए ताकि वह बोली प्रस्तुति करने समय पर या उससे पहले बोली अपलोड कर सके।
- ii. बोलीदाता को "BID SECURITY DECLARATION" पर हस्ताक्षर करना होगा, यह स्वीकार करते हुए कि यदि वे वैधता की अवधि के दौरान अपनी बोली वापस लेते हैं या संशोधित करते हैं, तो उन्हें निविदा दस्तावेजों में निर्दिष्ट समय के लिए निलंबित कर दिया जाएगा।
- iii. बोली ऑनलाइन जमा करते समय, बोलीदाता, CPP पोर्टल के नियमों और शर्तों को पढ़ेगा और अपनी बोली प्रस्तुत करने के लिए आगे बढ़ने के लिए इसे स्वीकार करेगा।
- iv. हटा दिया गया है।
- v. बोलीदाता डिजिटली हस्ताक्षर करेगा और आवश्यक बोली दस्तावेजों को एक-एक करके अपलोड करेगा जैसा कि निविदा दस्तावेज में दर्शाया गया है।
- vi. निविदाकर्ता ध्यान दें कि निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने और अपने प्रस्तावों को अपलोड करने के लिए DSC का उपयोग करने का बहुत ही कार्य इस बात की पुष्टि माना जाता है कि उन्होंने बिना किसी अपवाद के निविदा दस्तावेज के सभी अनुभागों और पृष्ठों को पढ़ा है और पूर्ण निविदा दस्तावेज को समझ लिया है और स्पष्ट हैं निविदा दस्तावेज की आवश्यकताओं के बारे में।
- vii. बोलीदाता ध्यान दें कि निविदा के लिए अपलोड किया जाने वाला प्रत्येक दस्तावेज 2 एम्बी से कम होना चाहिए। यदि कोई दस्तावेज 2 एम्बी से अधिक है, तो इसे ज़िप / आरएआर के माध्यम से कम किया जा सकता है और इसे अपलोड किया जा सकता है। 1 एम्बी से कम फ़ाइल आकार के लिए, लेनदेन का अपलोड समय बहुत तेज़ होगा।

- viii. मात्रा और मूल्य की अनुसूची को अपलोड करने के लिए अत्यंत सावधानी बरती जाएगी और मूल्य अनुसूची के किसी भी बदलाव / संशोधन को इसे बोली लगाने के लिए अयोग्य करार दिया जाएगा। बोलीदाता एक्सएलएस प्रारूप में मात्रा और मूल्यों की अनुसूची डाउनलोड करेंगे और फ़ाइल का नाम बदले बिना इसे बचाएंगे। बोलीदाता सफेद पृष्ठभूमि कोशिकाओं में आंकड़ों में अपनी दरों का उद्धरण करेगा, उसके बाद ही फ़ाइल को वित्तीय बोली कवर (मूल्य बोली) में सहेजें और अपलोड करें। यदि "मात्रा और मूल्यों की अनुसूची" फ़ाइल के टेम्पलेट को बोलीदाता द्वारा संशोधित / छेड़छाड़ करने के लिए पाया जाता है जो धोखाधड़ी प्रथाओं के लिए टैंमाउंट करते हैं और बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा और खंड के प्रावधान के अनुसार आईटीएम के 32 नंबर शामिल नहीं हैं, जिसमें ईएमडी का खर्च शामिल है। बोली सुरक्षा घोषणा का आह्वान। बोली लगाने वालों को आगाह किया जाता है कि वित्तीय बोली को कहीं और कवर 2 के अलावा अपलोड करने से निविदा खारिज हो जाएगी।
- ix. बोली लगाने वाले अंतिम तिथि और समय (सर्वर सिस्टम घड़ी के अनुसार) से पहले बोलीदाताओं को ऑनलाइन ई-निविदा प्रणाली के माध्यम से निविदा आमंत्रण प्राधिकरण (टीआईए) के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। टीआईए को किसी भी प्रकार की देरी या बोलीदाताओं द्वारा ऑनलाइन ग्यारहवें घंटे में बोली लगाने के दौरान आने वाली कठिनाइयों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।
- x. बोली प्रस्तुत करने के बाद (यानी पोर्टल में "फ्रीज बोली सबमिशन" पर क्लिक करने के बाद), बोलीदाता सिस्टम जनरेट किए गए पावर्टी नंबर का प्रिंट आउट ले लेंगे और इसे बोली के ऑनलाइन जमा करने के साथ्य के रिकॉर्ड के रूप में रखेंगे, जो एक प्रविष्टि के रूप में भी काम करेगा। बोली खोलने में भाग लेने के लिए पास।
- xi. बोलीदाता को निविदा स्थल के शीर्ष पर बोलीदाता के डैशबोर्ड पर प्रदर्शित होने वाले सर्वर समय का पालन करना चाहिए, जिसे ई-टेंडर प्रणाली में बोली प्रस्तुत करने, बोली खोलने आदि के अनुरोध के सभी कार्यों के लिए वैध माना जाएगा।
- xii. बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे सभी दस्तावेजों को डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए PKI (पब्लिक की इन्फ्रास्ट्रक्चर) एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग करके एन्क्रिप्ट किया जाएगा। दर्ज किया गया डेटा अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा बोली खोलने के समय तक नहीं देखा जा सकता है। सुरक्षित सॉकेट लेयर 128 बिट एन्क्रिप्शन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके बोलियों की गोपनीयता बनाए रखी जाती है।

ऑनलाइन बोली जमा करने की प्रक्रिया से संबंधित कोई भी प्रश्न या सामान्य रूप से सीपीपी पोर्टल से संबंधित प्रश्न 24x7 सीपीपी पोर्टल हेल्पडेस्क पर निर्देशित किए जा सकते हैं। फ्री नंबर 1800-3070-2232। मोबाइल न। 91-7878007972 और 91-7878007973

- 13 किसी भी शुद्धि, बाद में संशोधन और तारीखों का विस्तार, यदि कोई हो, तो बोली प्रस्तुत करने के लिए पोर्टल <http://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर पोस्ट किया जाएगा। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि निविदाएं जमा करने की समय सीमा से पहले पोर्टल को नियमित रूप से देखते रहें।
- 14 नियोक्ता किसी भी बोली को स्वीकार करने या अस्वीकार करने और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और अनुबंध को अवार्ड करने से पहले किसी भी समय सभी बोलियों को प्रभावित बोलीदाता या बोलीदाता (ओं) के प्रति कोई दायित्व का वहन किए बिना अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। एनएचपीसी केवल कार्य को अवार्ड करेगा और लेटर ऑफ अवार्ड सफल बोलीदाता को जारी करेगा यदि एनएचपीसी को अपनी टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) प्रक्रिया में सेकी द्वारा सफल

बोलीदाता के रूप में घोषित किया जाएगा। बोलीदाता अपनी बोली की तैयार करने और प्रस्तुत करने से संबंधित सभी लागतों को वहन करेगा, और नियोक्ता किसी भी स्थिति में बोली प्रक्रिया के संचालन या परिणाम की परवाह किए बिना इन लागतों के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा। हालाँकि, बोलीदाता (ओं) को जो रद्द / अस्वीकृति के ऐसे निर्णय के लिए कारण जानना चाहते हैं, उन्हें नियोक्ता द्वारा उसके बारे में सूचित किया जाएगा, जब तक कि इसके प्रकटीकरण से भारत की संप्रभुता और अखंडता, सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक या राज्य का आर्थिक हित को प्रभावित करने या अपराध का कारण बनने की संभावना न हो।

15 'निविदा आमंत्रण सूचना' के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के शब्दों के बीच कोई अंतर होने पर, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

कृते एनएचपीसी तथा एनएचपीसी लिमिटेड की ओर से,

महाप्रबंधक- सिविल (सीसी-III)
 कमरा नं° 220बी, दूसरी मंज़िल, एनएचपीसी कार्यालय परिसर,
 सेक्टर -33, फरीदाबाद -121003, हरियाणा, भारत
 टेलीफोन नं .:+91 (129) 2270974,
 ईमेल: contcivil3-co@nhpc.nic.in